

Corporate Office: Infocity, A-24, Sector 34 Gurugram 122 001, Haryana, India Tel: +91 (124) 4916500 www.niitmts.com Email: info@niitmts.com

May 23, 2024

The Manager
BSE Limited
Corporate Relation

Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department,
Exchange Plaza,
5th Floor, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Subject: Submission of copies of newspaper advertisements for publication of extracts of Audited Financial Results of the Company for the financial year ended March 31, 2024

Scrip Code: BSE - 543952; NSE - NIITMTS

Dear Sir,

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisements of May 23, 2024 (Financial Express and Jansatta) for publication of extracts of Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2024.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours sincerely,

Dellah 12

For NIIT Learning Systems Limited

Deepak Bansal Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a



FINANCIAL EXPRESS

UNIVASTU INDIA LIMITED

Email: info@univastu.com, Website: www.univastu.com

CIN - L45200PN2009PLC133864

Registered office: Bunglow No. 36/B, C.T.S. No. 994 & 945, (S.No. 117 & 118), Madhav I Shivtirth Nagar, Kothrud, Pune - 411038 Tel: 020-25434617, Mobile: 9552586198



5200PN2009PLC133864 ed office: Bunglow No. 36/B, C.T.S. No. 994 & 945, (S.No. 117 & 118), Madhav Baug, Nagar, Kothrud, Pune - 411038 Tel: 020-25434617, Mobile: 9552586198 nfo@univastu.com, Website: www.univastu.com	UNIVASTU	
Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Y	ear ended on 31.03.2024	ı

	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	03	2014/17/02/2014/03/03				(Rs. in Lacs
			Consolidated	2		Standalone	
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Year I	Ended	Quarter Ended	Year I	Ended
NO.	HISTORIAN PRESIDENTED	31-03-2024	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2024	31-03-2023
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total revenue from operations	3,925.00	12,048.86	8,694.51	2,724.89	7,700.69	8,013.70
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	683.62	1,456.29	900.41	387.38	856.13	893.29
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	683.62	1,456.29	900.41	387.38	856.13	893.29
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items	458.46	996.58	664.29	324.95	705.53	658.96
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	458.30	996.74	664.27	324.79	705.69	658.94
6	Equity Share Capital	1,136.46	1,136.46	1,136.46	1,136.46	1,136.46	1,136.46
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic:	2.88	6.24	5.83	2.86	6.21	5.80
	2. Diluted:	2.88	6.24	5.83	2.86	6.21	5.80

Place: Pune

1 The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.nseindia.com and the website of the Company www.univastu.com.

2 The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and are approved by the Board of Directors at its meeting held on 21" May 2024

Date : 21.05.2024

For Univastu India Limited Pradeep Khandagale

Managing Director

Technoplast Ltd.

PYRAMID TECHNOPLAST LIMITED

CIN: L28129MH1997PLC112723 Regd. Off: Office No.2, 2nd Floor, Shah Trade Centre, Rani Sati Marg. Near W.E Highway, Malad (East), Mumbai-400097 https://pyramidtechnoplast.com/info@pyramidtechnoplast.com

		Rs. in Lakhs (except earnings per share)								
Sr. No.	Particulars		Quarter Ende	Year ended						
NO.	100000000000000000000000000000000000000	March-24 Audited	Dec-23 Unaudited	March-23 Unaudited	March-24 Audited	March-23 Audited				
1	INCOME	å i	- 8							
a.	Revenue from operation	13,365.42	12,832.22	12,312.23	53,242.26	48,002.51				
b	Other Income	85.86	139.12	132.36	473.26	200.22				
	Total Income	13,451.28	12,971.34	12,444.59	53,715.53	48,202.73				
2	Expenses	1								
PE - 6	Cost Of materials Consumed	9,866.95	9,709.84	9,283.55	40,398.85	36,333.44				
- 5	Changes in Inventory of Stock in trade	61.13	(136.41)	5.78	(114.65)	(47.52)				
- 6	Employee Benefits Expenses	525.28	576.85	476.47	2,133.69	1,754.85				
	Depreciation and Amortisation Expenses	180,16	169.83	135.75	635.30	492.58				
	Finance Cost	41.86	30.52	107.81	233.76	405.30				
	Other Expenses	1,727.56	1,755.62	1,311.69	6,418.70	4,979.11				
- 8	Total Expenses	12,402.93	12,106.25	11,321.05	49,705.66	43,917.76				
3	Profit/Loss Before Exceptional Iteams and tax(1-2)	1,048.35	865.09	1,123.54	4,009.87	4,284.97				
4	Profit/(Loss) before tax	1,048,35	865.09	1,120.04	4,009.87	4,281.36				
60 j	Tax Expense	S TOWNSON	200000000000000000000000000000000000000	123112074200	: UDOSONE	account on the				
	Current Tax	239.91	216.27	281.91	974.45	1,060.00				
3	Deferred Tax	79.07	4.56	12.75	101.21	45.29				
	Total Tax Expenses	318.98	220.83	294.66	1,075.66	1,105.29				
5	Net Profit/(Loss) after tax	729.38	644.26	825.38	2,934.21	3,176.07				
6	Other Comprehensive Income		***************************************							
- 0	Items that will not be reclassified into Profit or Loss	22.54	(3.20)	(6.50)	4.19	(28,60)				
7	Total Comprehensive Income for the year (after tax)	706,84	647.46	831.88	2,930.02	3,204.67				
8	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 10 /- each)	3,678.48	3,678.48	3,128.48	3,678.48	3,128.48				
9	Earnings per Equity Share (of Rs. 10/- each)	9 8								
	Basic	1.92	1.76	2.66	8.49	10.24				
3	Diluted	1.92	1.76	2.66	8.49	10.24				
	11100001000000	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)	(Arroualised)				

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

Date: 22-05-2024

Place: Mumbai

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges unde Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e https://www.bsei.ndia.com/.

By Order of the Board of Directors For Pyramid Technoplast Limited

Jaiprakash Agarwal Whole Time Director and CFO



YUKEN INDIA LIMITED

Regd. Office: No 16 - C, Doddanekundi Industrial Area, Mahadevapura, Bangalore 560 048, India.

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

CIN: L29150KA1976PLC003017

(₹ in lakhs, except per share data) STANDAL ONE CONSOLIDATED

		STANDALONE				CONSOLIDATED					
		Quarter	Ended	Year Ended		Quarter Ended		Year Ended			
SI.No.	Description	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023		
	**************************************	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED		
1	Total Income from Operations	10,609.30	8,780.58	37,097.78	31,995.67	12,073.46	10,198.44	42,762.71	37,503.56		
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	905.62	66.30	2,095.67	1,010.68	1,096.39	209.10	2,696.10	1,374.09		
3	Net Profit for the period (before Tax and after Exceptional Items)	905.62	79.53	2,095.67	1,249.25	1,096.39	222.33	2,696.10	1,612.66		
4	Net Profit/(loss) for the period (after Tax and after Exceptional Items)	642.24	(93.08)	1,459.29	750.15	793.31	69.19	1,878.55	965.10		
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	608.03	(111.55)	1,425.08	731.68	744.94	50.84	1,830.18	946.75		
6	Paid up equity share capital (Face value Rs.10/- per share)	1,300.00	1,200.00	1,300.00	1,200.00	1,300.00	1,200.00	1,300.00	1,200.00		
7	Earnings per Share (of Rs.10/- each) (not annualised) - Basic & Diluted	4.94	(0.78)	11.44	6.25	6.11	0.58	14.75	7.97		

NOTE:

Place: Bangalore

Date: 22.05.2024

- The above is an extract of the detailed format of Financial results for the guarter and Year ended 31 March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com, www.nseindia.com and on Company's website www.yukenindia.com
- The above unaudited standalone and consolidated financial results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 22 May 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above financial results.
- The Board of Directors have recommended payment of final dividend of 15% (₹1.50 per equity share) for the financial year ended 31 March 2024 By Order of the Board of Directors

C P RANGACHAR Managing Director



Place : Mumbai

(Rs. in Millions, except per share data)

Standalone

Date: 22/05/2024

AEGIS LOGISTICS LIMITED CIN: L63090GJ1956PLC001032 Regd. Office: 502 Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi 396 195, Dist. Valsad, Gujarat

Corp. Office: 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg,
Lower Parel (W), Mumbai - 400013 Tel.: +91 22 6666 3666 Fax: +91 22 6666 3777 E-mail: aegis@aegisindia.com Website: www.aegisindia.com NOTICE for the attention of the Equity Shareholders of the Company

Transfer of Dividend/Equity Shares of the Company to Investor Education and **Protection Fund Authority** Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to section 124(6)

of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, ('the Rules'), that the Shareholders who have not claimed or encashed their dividends from the financial year 2016-17 for a period of 7 (seven) consecutive years, the equity shares in respect of which such dividends are lying unclaimed/unpaid along with their dividend amount for financial year 2016-17 (Final) will be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority. In view of the above, the statement containing the full details of the shareholders whose equity shares and the dividend for financial year 2016-17 (Final) are liable to be transferred

to IEPF is uploaded on the Company's website www.aegisindia.com (Path https://aegisindia.com/investor-information/ in 'Dividend Related Details > Share Transfer to IEPF > 2024) for information and necessary action by the shareholders. The shareholders can claim their unpaid or unencashed dividends from the Company by contacting/ emailing the Company's Registrar and Share Transfer Agent as per the below

details, in a manner that the dividends are encashed before 15th September, 2024: Link Intime India Pvt. Ltd., Unit - Aegis Logistics Limited C 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083

Tel.: 022 49186270/ (0) 8108116767 | Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in The Company has, vide its letter dated 21st May, 2024, communicated individually, to the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying unclaimed since financial year 2016-17 till 7 (seven) consecutive years, advising them to claim the dividends expeditiously. However, there is possibility that shareholder(s) may face some difficulties in receiving the physical copy of the notice delivered to their registered address. In such case, this Notice may please be considered as individual notice in compliances with the Rules. In case of no valid claim in respect of unclaimed dividend is received from the shareholders on or before 5th September, 2024 or such any date as may be extended (if any), the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority as per the procedure stipulated in the Rules. However, the concerned shareholders may claim the said shares along with the unclaimed dividend(s) from IEPF Authority by filing Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to the Nodal Officer of the

shares/unclaimed dividend transferred to IEPF pursuant to the Rules. The copy of Notice is also available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Company. Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of

For and on behalf of the Board Monica Gandhi **Company Secretary**

SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED

(CIN: U55209TN2018PLC122598)

Regd. Office: F1 C3 Sivavel Apartment 2 Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram,

MANAGED TRAINING SERVICES

NIIT Learning Systems Limited

(Formerly Known as Mindchampion Learning Systems Limited)

Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Website: http://www.niitmts.com Email: investors@niitmts.com

Corporate Identity Number: L72200HR2001PLC099478

Consolidated

Extract of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

							1.0			0		
			Quarter ende	d	Year	ended		Quarter ende	d	Year ended		
S. No.	Particulars	3 months ended March 31, 2024	Preceding 3 months ended December 31, 2023	Corresponding 3 months ended March 31, 2023	Current year ended March 31, 2024	Previous year ended March 31, 2023	3 months ended March 31, 2024	Preceding 3 months ended December 31, 2023	Corresponding 3 months ended March 31, 2023	Current year ended March 31, 2024	Previous year ended March 31, 2023	
		Audited	Unaudited	Audited (Refer note 4)	Audited Audited (Refer note 4 4 and 5) and 5)	Audited	Unaudited	Audited (Refer note 4)	Audited (Refer note 4)	Audited (Refer note 4)		
1	Total Income from Operations	3,979.13	3,913.24	3,856.84	15,535.08	13,617.87	1,076.55	1,012.26	1,042.80	4,001.68	4,037.75	
2	Net Profit for the quarter / year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	838.80	775.60	678.84	3,022.87	2,470.79	301.67	563.55	276.51	1,254.90	1,018.08	
3	Net Profit for the quarter / year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	838.80	775.60	648.77	2,971.07	2,284.87	301.67	563.55	250.72	1,241.23	982.27	
4	Net Profit for the quarter / year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	544.37	567.52	539.37	2,132.42	1,922.17	226.75	507.95	269.66	1,020.74	992.63	
5	Total Comprehensive Income for the quarter / year [Comprising Profit/ (Loss) for the quarter/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	523.55	634.75	547.07	2,221.81	2,053.34	233.45	497.42	295.36	1,052.74	1,000.22	
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	270.78	270.06	269.14	270.78	269.14	270.78	270.06	269.14	270.78	269.14	
7	Reserves excluding revaluation reserves				9,503.69	7,433.74				5,550.16	4,647.91	
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.)											
	- Basic	4.02	4.21	4.01	15.82	14.31	1.68	3.77	2.00	7.57	7.39	
	- Diluted	3.86	4.04	3.93	15.22	13.97	1.61	3.61	1.96	7.29	7.22	

Notes:

- 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the guarterly / year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niitmts.com.
- 2. The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 22, 2024.

- Total Income from Operations represent revenue from operations.
- The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated May 19, 2023 sanctioned the Composite Scheme of Arrangement (Approved by the board of directors of the Company on January 28, 2022). The Scheme became effective on May 24, 2023 upon filing of the certified copies of the NCLT order, sanctioning the Scheme with the respective jurisdictional Registrar of Companies. Pursuant to the Scheme becoming effective, the CLG Business Undertaking is demerged from NIIT Limited ("NIIT") and transferred to and vested in NIIT Learning Systems Limited ("NLSL") with effect from April 1, 2022 i.e. the Appointed Date. NIIT has transferred specific income, expenses, assets, liabilities and reserves of CLG Business Undertaking w.e.f. Appointed Date till Effective Date based on the allocation as prescribed in the Scheme and with respect to common items, the allocations are approved by the Board of Directors of the Company. Pursuant to the Scheme, NLSL has issued and allotted equity shares to the shareholders of NIIT whose name appeared in the register of members of NIIT as on the record date i.e. June 8, 2023, one equity share of Rs. 2/- each in NLSL as fully paid up for every equity share of Rs. 2/- each held by them in NIIT.
- 5. During the previous year, NIIT (USA), Inc, a wholly owned subsidiary company of NIIT Learning Systems Limited had acquired 100% membership interest in St. Charles Consulting Group LLC ("St. Charles") on November 04, 2022 and executed Membership Interest Purchase Agreement ("MIPA") and other definitive agreements ("Transaction Documents"). Accordingly, the results of the current year ended March 31, 2024 are not comparable with the corresponding year ended March 31, 2023.
- 6. The Board of Directors of the company, in the meeting held on October 30, 2023, declared an interim dividend of Rs. 2.50 per equity share and subsequent to the year end recommended a final dividend of Rs. 2.75 per equity share in the meeting held on May 22, 2024, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

For NIIT Learning Systems Limited

Vice-Chairman & Managing Director

Vijay K Thadani

By order of the Board

Chennai, Keelakattalai, Kanchipuram, Tambaram, Tamil Nadu-600117, India Tel: 044-29871174 | Email: cs@shiindore.com | Website: www.shiindore.com INTIMATION REGARDING 6th ANNUAL GENERAL MEETING The Sixth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the

Company will be held through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") on Monday, 24th June, 2024 at 3:00 p.m. IST in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice Calling the AGM.

The Notice of the AGM and the Audited financial statements for the financial year 2023-24, along with the Board Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereof, will be sent to the members of the company electronically, whose e-mail address is registered with the Company/ Depository Participant(s). The Notice of the AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.shilindore.com and on the website of BSE Limited ("BSE") www.bseindia.com.

Manner of registering/updating email address 1. For Physical shareholders- Please provide scanned copy of

request letter and necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTAemailid. 2. For Demat shareholders - Please update your email id & mobile

no. with your respective Depository Participant (DP).

3. For Individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no, with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

Manner of casting vote(s) through e-voting: Members can cast their vote(s) on the businesses as set out in the

Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode, and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

By the Order of the Board For Sayaji Hotels (Indore) Limited

Raoof Razak Dhanani Date: 23.05.2024 Director Place: Chennai DIN: 00174654

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Place: Gurugram

Date: May 22, 2024

financialexp.epapr.in





New Delhi

जनसता

सीबीआइ ने निरीक्षक राहुल

नई दिल्ली, 22 मई (ब्यूरो)।

सीबीआइ ने मध्य प्रदेश नर्सिंग कालेज के अध्यक्ष से दस लाख रुपए की रिश्वत कथित तौर पर लेते हुए गिरफ्तार किए गए अपने निरीक्षक राहुल राज को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 'भ्रष्टाचार के प्रति कतई मध्य प्रदेश नर्सिंग कालेज रिश्वत मामला। सहन नहीं करने की अपनी नीति'

के अनुरूप एजंसी ने संविधान के

राज को बर्खास्त किया

अनुच्छेद 311 के तहत राज को बर्खास्त कर दिया। ्सीबीआइ ने अपने पुलिस उपाधीक्षक आशीष प्रसाद को भी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। मामले की प्राथमिकी में उनका नाम भी शामिल है। सुशील कुमार मजोका और ऋषि कांत असाठे, दोनों मध्य प्रदेश पुलिस से सीबीआइ के साथ संबद्ध हैं और उन्हें जल्द ही राज्य पुलिस में वापस भेज दिया जाएगा। राज को रविवार को मलय कालेज आफ नर्सिंग के अध्यक्ष अनिल भास्करन और उनकी पत्नी सुमा अनिल से कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 'रंगे हाथों' पकड़ा गया था। मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाविद्यालयों को रिश्वत के बदले अनुकूल निरीक्षण रपट देने के आरोप में राज समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब शुरू की गई, जब सीबीआइ की आंतरिक सतर्कता इकाई से जानकारी मिली कि उसके अधिकारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर राज्यव्यापी निरीक्षण करने के लिए गठित टीमों में हो रहे कथित भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अदालत के आदेश पर टीम इसलिए बनाई गई थीं ताकि पता लगाया जा सके कि नर्सिंग महाविद्यालय बुनियादी सुविधाओं और संकाय के संबंध में तय मानदंड एवं मानकों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। केंद्रीय एजंसी ने एक बयान में बताया था कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सीबीआई ने सात कोर टीम और तीन से चार सहायता टीम का गठन किया था, जिसमें एजंसी के अधिकारी, राज्य में नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा नामित अधिकारी और पटवारी शामिल थे। सीबीआइ ने कहा कि एजंसी द्वारा दर्ज किया गया मामला भ्रष्टाचार के प्रति उसकी कर्तर्ड सहन नहीं करने की नीति को मजबूती प्रदान करता है और यह

पुणे में नाव पलटने से छह लोग डूबे पुणे, 22 मई (भाषा)।

दिखाता है कि संगठन के मूल मूल्यों से भटकने पर सीबीआइ

अपने अधिकारियों को भी नहीं बख्शती है।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में उजनी बांध के पास नाव पलटने से दो बच्चों समेत छह लोग डूब गए। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को तेज हवाओं और बारिश के बाद हुई।

इंदापुर के तहसीलदार श्रीकांत पाटिल ने कहा कि डूबने वालों में तीन पुरुष, एक महिला और दो बच्चे शामिल हैं। नाव सेवा कलाशी और भूगाव गांवों के बीच संचालित होती है। मंगलवार शाम को तेज हवाओं और बारिश के बाद सात लोगों को ले जा रही यह नाव पलट गई। नाव में सवार सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर का एक अधिकारी तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय प्रशासन की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।



MANAGED TRAINING **SERVICES**

देश

NIIT Learning Systems Limited

(Formerly Known as Mindchampion Learning Systems Limited) Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Website: http://www.niitmts.com Email: investors@niitmts.com Corporate Identity Number: L72200HR2001PLC099478

Extract of Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2024

(Rs. in Millions, except per share data)

	Particulars			Consolidated					Standalone		
		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
S. No.		3 months ended March 31, 2024	Preceding 3 months ended December 31, 2023	Corresponding 3 months ended March 31, 2023	Current year ended March 31, 2024	Previous year ended March 31, 2023	3 months ended March 31, 2024	Preceding 3 months ended December 31, 2023	Corresponding 3 months ended March 31, 2023	Current year ended March 31, 2024	Previous year ended March 31, 2023
		Audited	Unaudited	Audited (Refer note 4)	Audited (Refer note 4 and 5)	Audited (Refer note 4 and 5)	Audited	Unaudited	Audited (Refer note 4)	Audited (Refer note 4)	Audited (Refer note 4)
1	Total Income from Operations	3,979.13	3,913.24	3,856.84	15,535.08	13,617.87	1,076.55	1,012.26	1,042.80	4,001.68	4,037.75
2	Net Profit for the quarter / year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	838.80	775.60	678.84	3,022.87	2,470.79	301.67	563.55	276.51	1,254.90	1,018.08
3	Net Profit for the quarter / year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	838.80	775.60	648.77	2,971.07	2,284.87	301.67	563.55	250.72	1,241.23	982.27
4	Net Profit for the quarter / year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	544.37	567.52	539.37	2,132.42	1,922.17	226.75	507.95	269.66	1,020.74	992.63
5	Total Comprehensive Income for the quarter / year [Comprising Profit/ (Loss) for the quarter/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	523.55	634,75	547.07	2,221.81	2,053.34	233.45	497.42	295.36	1,052.74	1,000.22
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	270.78	270.06	269.14	270.78	269.14	270.78	270.06	269.14	270.78	269.14
7	Reserves excluding revaluation reserves				9,503.69	7,433.74				5,550.16	4,647.91
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.)			12				121			
	- Basic	4.02	4.21	4.01	15.82	14.31	1.68	3.77	2.00	7.57	7.39
	- Diluted	3.86	4.04	3.93	15.22	13.97	1.61	3.61	1.96	7.29	7.22

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarterly / year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niitmts.com
- 2. The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 22, 2024.
- Total Income from Operations represent revenue from operations.
- The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated May 19, 2023 sanctioned the Composite Scheme of Arrangement (Approved by the board of directors of the Company on January 28, 2022). The Scheme became effective on May 24, 2023 upon filing of the certified copies of the NCLT order, sanctioning the Scheme with the respective jurisdictional Registrar of Companies. Pursuant to the Scheme becoming effective, the CLG Business Undertaking is demerged from NIIT Limited ("NIIT") and transferred to and vested in NIIT Learning Systems Limited ("NLSL") with effect from April 1, 2022 i.e. the Appointed Date. NIIT has transferred specific income, expenses, assets, liabilities and reserves of CLG Business Undertaking w.e.f. Appointed Date till Effective Date based on the allocation as prescribed in the Scheme and with respect to common items, the allocations are approved by the Board of Directors of the Company. Pursuant to the Scheme, NLSL has issued and allotted equity shares to the shareholders of NIIT whose name appeared in the register of members of NIIT as on the record date i.e. June 8, 2023, one equity share of Rs. 2/- each in NLSL as fully paid up for every equity share of Rs. 2/- each held
- During the previous year, NIIT (USA), Inc., a wholly owned subsidiary company of NIIT Learning Systems Limited had acquired 100% membership interest in St. Charles Consulting Group LLC ("St. Charles") on November 04, 2022 and executed Membership Interest Purchase Agreement ("MIPA") and other definitive agreements ("Transaction Documents"). Accordingly, the results of the current year ended March 31, 2024 are not comparable with the corresponding year ended March 31, 2023.
- The Board of Directors of the company, in the meeting held on October 30, 2023, declared an interim dividend of Rs. 2.50 per equity share and subsequent to the year end recommended a final dividend of Rs. 2.75 per equity share in the meeting held on May 22, 2024, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

By order of the Board For NIIT Learning Systems Limited

Vijay K Thadani Vice-Chairman & Managing Director

घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 17 हुई

मुंबई, 22 मई (भाषा)।

मुंबई के घाटकोपर इलाके में 13 मई को होर्डिंग गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि होर्डिंग गिरने की घटना में घायल हुए राजू सोनावणे (52) की 19 मई को केईएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

इससे पहले होर्डिंग गिरने की

इस घटना में अधिकारियों ने 'वाय् यातायात नियंत्रक' (एटीसी) के एक सेवानिवृत्त महाप्रबंधक और उनकी पत्नी समेत 16 लोगों को मृत घोषित कर दिया था। होर्डिंग गिरने की घटना में 75 लोग घायल भी हुए थे। घटना के एक दिन बाद घायलों को इलाज के लिए केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घाटकोपर के छेडा नगर इलाके में एक पेटोल पंप पर विशाल आकार का होर्डिंग लगाने वाली विज्ञापन कंपनी के निदेशक भावेश भिंडे को बाद में राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया गया. जिसे एक अदालत ने 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

बुजुर्ग दंपति व बेटे ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की

राजकोट, २२ मई (भाषा)।

गुजरात के राजकोट जिले के पदधरी कस्बे में बुधवार को एक बुजुर्ग दंपति और उनके 35 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

पदधरी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जिले के मोटा रामपुर गांव के पास सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर एक आटो रिक्शा से तीनों के शव बरामद किए गए। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिससे पता चलता है कि आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य चितांओं के चलते परिवार ने यह कदम उठाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।

(a) pnb Housing

Place: Gurugram

Date: May 22, 2024

अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी विक्री सुचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय :-- वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली--110001 फोन:--011--23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com कविनगर, गाजियाबाद शाखाः गीएनवी हार्तसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी-८, पहली मंजिल, वीएसएनएल कार्यालय के सामने, राजनगर जिला। केंद्र (आरडीसी), गाजियाबाद-201002।

एतदुद्वारा सर्वे साधारण की और विशेष रूप से कालम नंबर —ए में निदर्शित कर्जदाए(सें) एवं गारंटर(सें) को सुबना दी जाती है कि प्रत्यामृत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित कालम नंबर—डी में वर्णित अवल सम्पत्ति(या), जिसका प्रलक्षित / मीतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल) / प्रत्यामूत लेनदार के प्रीचिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर—सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेपी जाएगी। एतदद्वारा कालम नंबर —ए में निदर्शित कर्जदार(रॉ) / बंधकदाता(ऑ) / संबंधित कर्जदार(रॉ) / बंधकदाता(ऑ) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसी कानूनी प्रतिनिधियाँ, (बाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावसी, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवँ 9 के तहत

बैंकी के विस्तत नियम एवं शर्तों के लिए कपया मैसर्स पीएनबी सावशिय फावनेंस लिमिटेज प्रतिभत लेनदार की वेबसाइट नामत www.pnbhousing.com में उपानब कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम गार्रटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (दी)	अन्धित मूल्य (आरपी) (ही	ईएमडी (अल्पी का 18%) (एक)	बोली प्रस्तुत करने की जीतम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथ्य एव समय (आई)	नीलामी की विधि एवं समय (जे)	ग्रात ऋणभार/ न्यायालय मगला, यदि कोई, (6)
NHL/KAVV0718/555744, बी.ओ. कवि नगर, शिव कुमार, जीतेन्द्र, जीतेन्द्र	14.12.2023 可泰 委, 1,223,300.76	1000000	दुकान नंबर –12 ए. स्वीट नंबर – 1/3, मीति खंड – 3 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, क्षेत्रमन्त 9.1 वर्गमीटर	专. 12,29,000	₹. 1,22,900	24.06.2024 34, 5.30 ਕਰੇ ਦੇ ਪਛਕੇ	₹. 10,000	10.06.2024, पूर्वी 10.00 बजे से अप 5.30 बजे	12.30 बजे से	Not Known

उसके भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खार्ची, लागत, प्रमार्थी इत्यादि सहित। "पीएनबी डाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकरी के वंश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अध्रत 🗸 प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणमार 🗸 दावे नहीं है, सिवाय उनके जो कालम नंबर – के में वर्णित किए यह हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणमारों का नुगतान 🗸 अदायगी नफल केंता / बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल केता(ओ) / बोलीदाताओं से वर्णित ऋणमारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। t. आज की तिथि तक, प्रिएनबीएकएल/पीएनबीएकएलएल के प्रविक्त अधिकरी पर उपरोक्ता अवल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आरितयों की बिकी, हस्तांतरण तथा / अथव निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा / अथवा न्यायालय निष्धादेश लागू नहीं है। 🙎 संभावित केता / बोलीदाता तथा इंबर्ड्क पार्टियां कालम नंबर-के में वर्षित, कार्यवाडी / पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएबएफएल के पास उपलब्ध उसके स्थामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंगु उसी तक सीमित नहीं है. का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सबी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा / बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(से) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ऑ) को बोली

प्रपन्न के साथ इस नीलागी के नियमों और शतौं पर हस्ताक्षर करने होंगे कुपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता 🗸 खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की चुलना में बाद में नहीं । सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिकी मृत्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिकी की पृष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के मीतर केता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के किएतेंटर होने पर, संपत्ति 🗸 सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।

. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से विकी संवालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्योरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट www.bankeauctions.com राहायता करेगी । संपत्ति के निरीधाण या बोली दश्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएकएल प्राधिकत अधिकारी देवेन्द्र गुप्ता संपर्क नंबर 1800120 8800, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अधवा www.pnbhousing.com पर देखे

स्थान: गाजियाबाद, दिनांक: 23-05-2024 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

one 97

ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED

CIN: L72200DL2000PLC108985

Registered Office: First Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi 110019, India; Tel: +91 11 2628 0280; Website: www.paytm.com

Corporate Office: Paytm Corporate Office, One Skymark, Tower-D, Plot No. H-108, Sector-98, Noida 201304, Uttar Pradesh, India

Tel: +91 120 4770770; E-mail: compliance.officer@paytm.com; Fax: +91 120 4770771

			Quarter Ended		Year E	nded
Sr. No.	Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
- 8		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations (including other income)	23,988	29,991	24,646	1,05,247	84,000
2	Loss for the period/year before tax	(5,364)	(2,210)	(1,682)	(13,904)	(17,429)
3	Loss for the period/year after tax	(5,505)	(2,217)	(1,675)	(14,224)	(17,765)
4	Total comprehensive income/(loss) for the period/year (after tax)	(3,222)	(1,578)	(1,689)	(12,328)	(15,683)
5	Equity share capital	636	635	634	636	634
6	Other equity				1,32,630	1,29,522
7	Earnings per share (₹ per share of ₹1/- each) Basic*: Diluted*: *Not annualised for quarters	(9)	(3)	(3)	(22) (22)	(27) (27)

I. Statement of Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

II. Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

						(₹ in millions
		9	Year Ended			
Sr. No.	Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations (including other income)	18,237	22,785	19,360	81,852	64,271
2	Loss for the period/year before tax	(5,663)	(2,536)	(2,033)	(14,762)	(18,558)
3	Loss for the period/year after tax	(5,663)	(2,536)	(2,033)	(14,762)	(18,558)

 The above are extract of the detailed format of Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of financial results are available on the stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.paytm.com)

2. The above Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee in meeting held on May 21, 2024 and approved by the Board of Directors of the Company in meeting held on May 22, 2024.

3. The Statement includes the results for the quarter ended March 31, 2024 and March 31, 2023, being the balancing figure between audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the respective financial years which were subject to limited review.

For One 97 Communications Limited

Place: New Delhi Date: May 22, 2024

Vijay Shekhar Sharma Chairman, Managing Director and CEO

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

LIBERTY

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185

पंजीकृत कार्यालयः लिबर्टीपुरम, 13वाँ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा कॉर्पोरेट ऑफिस: भूतल, टावॅर-ए, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा दूरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्स: +(91)-0124-4616222

ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 एंव भारतीय प्रतिभृति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') के विनियम 44 तथा काँरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा निर्धारित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जुन, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 (इसके बाद सामूहिक रुप से 'एमसीए परिपत्र' के रुप मे संदर्भित) और अन्य कोई लागू कानून, नियम और विनियम, यदि कोई हो, लिबर्टी शूज लिमिटेड (कंपनी) ने बुधवार 22 मई, 2024 को अपने सदस्य जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी अथवा कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास दर्ज करा रखी है, केवल ई-मेल के माध्यम से, रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के द्वारा पोस्टल बैलेट की सूचना दिनांक 18 मई 2024 तथा व्याख्यात्मक विवरण तथा पासवर्ड/लोगीन आईडी, उपरोक्त पोस्टल बैलेट की सूचना में निर्धारित विशेष संकल्पों के संम्बंध में केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अनुमोदन के लिए, भेज दी गई हैं। अधिनियम की धारा 102(1) के तहत प्रस्तावों से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला विस्तृत व्याख्यात्मक विवरण, पोस्टल बैलेट सूचना का हिरसा है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने जे वी एस एण्ड एसोसिएट्स (सी. पी. नम्बर 10196) को उपरोक्त पोस्टल बैलेट प्रक्रिया का सही तथा निष्पक्ष रुप से संचालन करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रुप में नियुक्त किया गया हैं। एमसीए परिपत्रों की आपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए, इस पोस्टल बैलेट के लिए पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई एन्वोलॉप के साथ सूचना की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी। सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे अपनी सहमति या असहमति को केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से भेज सकते हैं। इस उददेश्य के लिए, कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करने के लिए लिंक ईन टाईम इंण्डिया

प्रावेट लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर विस्तत पद्धति/निर्देश और अभी तक अपने ई-मेल पते को रजिस्टर नहीं करने वाले सदस्यों के लिए अपने ई-मेल पते को रिजस्टर करने के निर्देश और/या अपने मत देने के निर्देश पोस्टल बैलेट सचना में निर्दिष्ट हैं।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि बृहस्पतिवार, 23 मई, 2024 सुबह 9 बजे (भारतीय मानक समय) से आरंभ होगी और शुक्रवार 21 जून 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इस पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल लिंक ईन टाईम इंण्डिया प्रावेट लिमिटेड द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिगं की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रस्तावों पर एक बार मत देने के पश्चात सदस्य अपना मत बदल नही पाएगें।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने की कट ऑफ तिथि शुक्रवार 17 मई, 2024 हैं। मौतिक और अमौतिक रूप से शेयर धारक सदस्य और जिनका नाम केवल कट ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, उन्हें ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाम उठाने का हक होगा। एक व्यक्ति जो कट आँफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल जानकारी समझे।

व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलेट सूचना कंपनी की वेबसाइट www.libertyshoes.com, कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रासंफर एजेंट लिक ईन टाईम इंग्डिया प्रावेट लिमिटेड की वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंग्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और बी एसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइटो पर उपलब्ध हैं।

पोस्टल बैलेट का परिणाम दिनांक शनिवार, 22 जून 2024 तक धोषित कर दिया जाएगा। स्क्रुटिनाइज़र रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तथा कार्रपोरेट कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाईट यानी www.libertyshoes.com और लिक ईन टाईम इंण्डिया प्रावेट लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट यानी https://instavote.linkintirne.co.in, पर भी उपलब्ध होगा, साथ-साथ परिणाम उन

स्टाँक एक्सचेंज पर भी सूचित किया जाएगा, जहा कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। किसी भी शंका/समस्या/शिकायत के मामले में, सदस्य (i) रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका या (ii) सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू) देख सकते हैं। जो हेल्प सेक्शन में https://instavote. linkintime.co.in, पर उपलब्ध हैं या वह enotices@linkintime.co.in पर ईमेल मेज सकते हैं

या 022-4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा

तिथिः बुधवार, 22 मई, 2024

के लिए और की तरफ से

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड सी एस मुनीष काकरा

मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव सदस्य संख्या ACS6262